



बिहार गजट

असाधारण अंक

बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

15 आश्विन 1938 (श0)
(सं0 पटना 869) पटना, शुक्रवार, 7 अक्टूबर 2016

जल संसाधन विभाग

अधिसूचना

19 अगस्त 2016

सं0 22/नि0सि0(मुज0)-06-10/2012/1773—श्री हरिश कुमार सिंह, तत्कालीन कार्यपालक अभियंता, तिरहुत नहर प्रमण्डल, रतवारा, मुजफ्फरपुर सम्प्रति सेवानिवृत्त को उनके पदस्थापन अवधि में प्रमण्डल के अन्तर्गत कराये जा रहे कैनल लाईनिंग कार्यों में बरती गयी अनियमितता की जाँच उड़नदस्ता अंचल, पटना द्वारा की गयी। उड़नदस्ता द्वारा समर्पित जाँच प्रतिवेदन की समीक्षा विभाग के स्तर पर की गयी। समीक्षोपरान्त श्री सिंह से विभागीय पत्रांक 659 दिनांक 11.06.2013 द्वारा स्पष्टीकरण पूछा गया। श्री सिंह से प्राप्त स्पष्टीकरण की समीक्षा सरकार के स्तर पर की गयी। समीक्षोपरान्त विभागीय संकल्प सं0 1829 दिनांक 04.12.14 द्वारा श्री सिंह के विरुद्ध बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली के नियम-17 (2) में विहित रीति से विभागीय कार्यवाही संचालित की गयी। विभागीय कार्यवाही के संचालन के क्रम में दिनांक 31.01.16 को श्री सिंह के सेवानिवृत्त हो जाने के फलस्वरूप इनके विरुद्ध पूर्व से संचालित विभागीय कार्यवाही को विभागीय आदेश सं0 44 सह ज्ञापांक 658 दिनांक 18.04.16 द्वारा बिहार पेंशन नियमावली के नियम-43 (बी0) में सम्परिवर्तित किया गया।

संचालन पदाधिकारी से जाँच प्रतिवेदन की समीक्षा सरकार के स्तर पर की गयी। जिसमें निम्न तथ्य पाये गये:-

तिरहुत मुख्य नहर के वि0 दू0 728 से वि0 दू0 760 तक का कार्य दिनांक 01.11.11 से 25.11.11 के बीच में पूरा कर भुगतान हेतु RA BiLL No.-10 एवं पत्रांक 921 दिनांक 14.12.11 से संवेदक द्वारा प्रमण्डल को सौंपा गया था।

श्री सिंह, तत्कालीन कार्यपालक अभियंता द्वारा दिनांक 18.02.12 को प्रमण्डल का प्रभार ग्रहण किया गया। प्रभार ग्रहण करने के पश्चात श्री सिंह ने अपने पत्रांक 210 दिनांक 07.03.12 के द्वारा वि० दू० के कार्य को अमान्य करते हुए इसके भुगतान पर रोक लगा दिया। तिरहुत मुख्य नहर के वि० दू० 728 से 760 तक की मापी दिनांक 29.03.12 को ली गयी। इस मापी में लाईनिंग 739.80 से 740.00 वि० दू० का कार्य सम्मिलित नहीं है। कार्यपालक अभियंता, तिरहुत नहर प्रमण्डल, रतवारा के पत्रांक 41 दिनांक 20.01.15 के अनुसार तिरहुत मुख्य नहर के वि० दू० 739.80 से 740.00 तक के लाईनिंग कार्य का भुगतान अभी तक नहीं किया गया है।

समीक्षोपरान्त आलोच्य कार्य श्री सिंह के कार्यालय में योगदान के पूर्व ही संपादित कर लिये जाने तथा आलोच्य कार्य का भुगतान अभी तक स्थगित रहने से संचालन पदाधिकारी के मंतव्य से सहमत होते हुए कार्य से असम्बद्ध रहने के कारण सरकार द्वारा मामले में श्री सिंह को आरोप मुक्त करने का निर्णय लिया गया है।

उक्त निर्णय श्री हरिश कुमार सिंह, तत्कालीन कार्यपालक अभियंता, तिरहुत नहर प्रमण्डल, रतवारा सम्प्रति सेवानिवृत्त को संसूचित किया जाता है।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
जीउत सिंह,
सरकार के उप-सचिव।

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।
बिहार गजट (असाधारण) 869-571+10-डी०टी०पी०।
Website: <http://egazette.bih.nic.in>